



## MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

Ref : MUL/SEC/ 2017-18/133

Date : 6<sup>th</sup> May, 2017

National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex  
Bandra(E), Mumbai – 400051

BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip Code : NSE – MAYURUNIQU; BSE- 522249

**Subject: Submission of Notice published in newspaper in respect of Transfer of Equity Shares to the demat account of Investor Education Protection Fund (IEPF) Authority**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are appending herewith copy of newspaper clippings regarding notice given to Shareholders of the Company in connection with the transfer of Shares to the demat account of Investor Education Protection Fund (IEPF) Authority, pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education & Protection Fund Authority ( Accounting, Audit , Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended.

Kindly take above information on record.

Thanking you,

Yours truly,

For Mayur Uniquoters Limited

**Brahm Prakash**  
Company Secretary and Compliance Officer



A Texture For Every Idea



**Correspondance Address:**

28, 4th Floor, Lakshmi Complex, MI Road, Jaipur-302001 (Rajasthan) India • Tel: +91-141-2361132 • Fax: +91-141-2365423

Regd. Office & Works: Village Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Jaipur-303704 (Rajasthan) India • Tel: +91-1423-224001 • Fax: +91-1423-224420

Email: info@mayur.biz • www.mayuruniquoters.com



# DP World to invest \$1 billion more in India maritime infra

FE BUREAU  
New Delhi, May 4

**DUBAI-BASED PORT** operating firm DP World will invest in excess of \$ 1 billion over the next few years towards expansion of its maritime infrastructure in India, its chairman and chief executive officer Sultan Bin Sulayem said on Thursday.

DP World, already the biggest foreign port operator in India, has already invested over \$ 1 billion in the country. The company sees "huge" opportunity as "the supply chain in India has a lot of inefficiencies," he said.

Speaking at the India Integrated Transport and Logistics Summit, he said "Due to lack of proper storage, millions of tonnes of fruit and vegetables get wasted in India. If proper planning is done and proper storage facility and logistic infrastructure is made available, this waste could be stopped. It costs the government over a billion. We have expertise in logistics."



Sultan-Ahmed-Bin-Sulayem

The proposed investment would be made basically looking at what is needed to be done as expansion is a continuous process.

"We are not constrained for capital. Given the right commercial and economic dynamics it will become a major contributor in partnership with the government to achieve the objective of lowering the cost of logistics in India," a senior DP World official said.

DP World signed a MoU with National Investment Infrastructure Fund (NIIF) to develop projects spanning across the port and logistics sectors including the Sagarmala project, Dedicated Freight Corridors and logistics infrastructure aimed at reducing agriculture produce losses.

Sulayem said there is also a great need to reach internal markets, invest in cold storage facilities and networks, as well as using coastal and inland water-

ways to increase efficiency and lower costs.

He said by developing this transport infrastructure at existing ports, multi-modal transport including rail for freight and more use of waterways, there will be a direct economic impact benefiting manufacturing and agriculture sectors.

PXIL Transforming Power Markets					
Power Exchange India Limited					
Trading Month of April-2017					
Markets	DAS		INTRADAY		
Traded	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	
Min	3.84	2.44	4.20	2.19	
Max	2.12	0.04	2.36	0.20	
Avg.	2.78	0.90	3.44	0.83	
Total		26.86		11.62	

# Tata Motors-Sanand workers talks on track

FE BUREAU  
Ahmedabad, May 4

**NEGOTIATIONS BETWEEN** Tata Motors and its workers at Gujarat's Sanand plant appear to be headed towards a "positive" conclusion, with both parties inching towards a five-year settlement plan for wages.

"It is good if we and the company can settle the issue amongst ourselves. The environment at the plant is good, and we have ensured that production continues as normal. Talks are proceeding in a very positive direction," said Hitesh Rabari, president, Bharatiya Kamdar Ekta Sangh (BKES).

A tripartite meeting had been scheduled for today between the company, its workers and officials of the Gujarat government's labour department. The next meeting between the three will be held on May 18.

Rabari added, "We are working on a settlement from October 2015 till October 2020. For 2015 and 2016, we have previous settlement dues, so we agreed on extending the settlement till 2020 itself." Workers had previously demanded that the company first settle its previously owed dues, and then work out a settlement similar to the three-year wage settlement effected at its plant near Pune. Workers had previously been reluctant to agree to a settlement till 2020, alleging that their wages were too low to agree

## GM to consider VRS applications

**GENERAL MOTORS** India on Thursday said it will accept voluntary retirement scheme from workers of its Halo manufacturing facility, where it has stopped production. GM India president and managing director Kaher Kazem said the step has been taken after a number of employees at the unit had individually approached the management seeking reopening of a separation scheme offered earlier. "As we continue to consolidate GM India manufacturing at our Talegaon plant, we are listening to our employees and supporting them through the transition," Kazem said in a statement. — PTI

till 2020. They had initially approached the Gujarat government in March, over the issue of low wages. The fresh trouble at the Sanand plant comes nearly a year after 400-odd workers at the plant embarked on a strike, causing production to drop drastically. The strike lasted nearly a month, at the end of which, the BKES emerged as a recognised union.

# India asks UK for early Mallya extradition

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, May 4

**INDIA ON THURSDAY** asked Britain to ensure early extradition of fugitive businessman Vijay Mallya, wanted back home in a bank default case of over ₹9000 crore involving his defunct Kingfisher Airlines.

Union home secretary Rajiv Mehriishi sought early conclusion of the extradition process of Mallya, who has been declared a proclaimed offender by a Mumbai court, during his talks here with his UK counterpart Patsy Wilkinson, the second permanent secretary in the British Home Office, official sources said. "We have discussed how to remove the bottlenecks in processing extradition requests. The process involved in matters of extradition and the need to further improve them were also discussed," home ministry adviser Ashok Prasad said.

Though Prasad maintained no specific case was discussed at the meeting, some other official sources said the Mallya case was indeed raised by the union home secretary. Prasad said Mallya's case was subjudice. The presence of certain Khalistani militant elements in the UK also came up for discussion. "We discussed the issue of Khalistani militants based in the UK and they have promised to look into it," Prasad said. Both sides agreed to address the challenges of illegal migrants and resolved to work together to ensure smooth return of Indians overstay in the UK after proper verification.

**BALA-BESTOS (INDIA) LIMITED**  
46/C, Chowringhee Road, Kolkata-700 071  
Website: www.balabestos.com  
Email: balabestosindia@gmail.com  
CIN: L51109WB1982PLC0035179  
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th May, 2017 at 11.30 A.M. at the Registered office of the Company 46/C, Chowringhee Road, Kolkata - 700071, to consider and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended March 31, 2017 and any other matter with the permission of the Chair.  
For **BALA-BESTOS (INDIA) LIMITED**  
Place : Kolkata (Rajiv Chawla)  
Date : 04.05.2017 Director

**"IMPORTANT"**  
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**M Mayur Uniquoters Limited**  
Regd. Office and Works: Jaipur Sikar Road, Village Jaitpura, Tehsil-Chomu, Distt. Jaipur-303704 (Raj.) India.  
Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224200 CIN: L18101RJ1992PLC006952  
Website: www.mayuruniquoters.com Email: secr@mayurbiz

**Notice to the Shareholders**  
Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs w.e.f 7th September 2016 and further amended on 28th February, 2017, (the Rules), the Equity Shares of the Company in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for seven years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.  
In pursuance of these rules, the Company has sent individual notices to the concerned shareholders through the Speed Post at their registered address whose shares are liable to be transferred to Demat account of IEPF Authority, advising them to claim the dividends expeditiously.  
The Company has uploaded the details of concerned shareholders whose share are due for transfer to the demat account of the IEPF Authority on its website at www.mayuruniquoters.com. The Shareholders are requested to verify the details of the shares liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority.  
In case the Company does not receive any valid claim from the concerned shareholders latest by 31st May, 2017, the Company will proceed to transfer the shares to the demat account of the IEPF Authority.  
The shareholders may please note that both the unclaimed dividend and shares transferred to the IEPF including any benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by them from the IEPF Authority by following the procedure prescribed under the Rules.  
The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Demat Account may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF Demat Account as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shares held in demat account of the concerned shareholders will be transferred to IEPF Demat Account as per the said Rules.  
The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of transfer of demat shares and issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF Demat Account pursuant to the Rules. No claim shall lie against the Company in respect of which unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF account.  
For further information, the concerned shareholders may write to Company's Registrar & Share Transfer Agent M/S Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, behind LSC, New Delhi - 110062. Phone: 011 - 29961281-283, Fax: 011-29961284, E-mail: investor@beetalfinancial.com.

For **Mayur Uniquoters Limited**  
Sd/-  
Brahm Prakash  
Company Secretary

Place : Jaitpura, Jaipur  
Date : 3rd May, 2017

Government of India  
Public Enterprises Selection Board  
invites applications for the post of

**Director (Shipbuilding)**  
in **Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.**  
Last date of receipt of applications in PESB is **by 15.00 hours on 7th July, 2017**  
For details login to website <http://www.pesb.gov.in>

CIN - L74899DL1993PLC041790

**LT Foods Ltd.**  
Regd. Off.: Unit 134, 1st Floor, Rectangle-1, Saket District Centre, New Delhi-110017  
Corporate Off.: MVL-1 Park, 4th Floor, Sector-15, Gurugram-120091, Haryana.  
Tel: 0124-3055100, Fax: 0124-3055199, Email id: ir@ltgroup.in, Website: www.ltgroup.in

**NOTICE TO SHAREHOLDERS UNDER SECTION - 124(6) OF COMPANIES ACT 2013 FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND**  
Notice is given pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education & Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer & Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as notified by the Ministry of Corporate Affairs, New Delhi.  
The Rule, Inter alia, provided for Transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven years, to the Investor Education & Protection Fund (IEPF) set up by the Central Government. Accordingly, individual communication is being sent to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at their latest available address. The Company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website www.ltgroup.in. Shareholders are requested to refer to the website www.ltgroup.in to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF.  
View above, all such shareholders are requested to make an application to the Company/Registrar by 15th May 2017 for claiming the unpaid for the year 2009-10 onwards so that their shares are not transferred to the IEPF.  
It may please be noted that if no claim/application is received by the Company or the Registrar, the Company shall take suitable steps to transfer the unclaimed shares to the IEPF, without any further notice, by following the due process as enumerated in the said Rules which is brief as under:  
a. In case of shares held in Physical form-by issuance of duplicate share certificate and transfer same to IEPF  
b. In case of shares held Demat mode-by issuance of instruction to member's Depository Participant to transfer the shares directly to IEPF.  
Kindly note that all future benefits, dividends arising on such shares would also be transferred to IEPF.  
All shareholders are requested to note the above provisions and claim all unpaid dividends from time to time as per the present rules the shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the said Rules.  
For any clarification on the matter, members may kindly contact the Company's Registrar and Transfer Agents, M/s Bighshare Services Private Limited 4-E/8, 42425904, Jhandedwahi, Bighshareonline.com  
For **Monika Chawla Jagjia**  
LT Foods Ltd. (Company Secretary)  
Membership No. F5150

Date:- 05<sup>th</sup> May 2017  
Place:- Gurugram  
Date:- Gurugram

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

**Giftcarat** **PURE GIFTCARAT LIMITED**  
(CIN: U36910GJ2011PLC065141)

Our Company was incorporated on April 26, 2011 as L'avance Dirays Limited under the provisions of the Companies Act, 1956 with Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli with Corporate Identity Number U36910GJ2011PLC065141. Further name of our Company has been changed from L'avance Dirays Limited to Pure Giftcarat Limited on September 16, 2015 with Certificate issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad. For details of changes in name and registered office of our Company, please refer to the section titled "History and Certain Corporate matters" beginning on page 89 of the Prospectus.

Registered Office: Plot-828/829, 3rd Floor, Office-3, Shree Kuberji Complex, Athugar Street, Nanpura Main Road, Surat-395001, Gujarat, India  
Tel: +91-22-2473233, E-mail: info@puregiftcarat.com, Website: www.puregiftcarat.com;  
Company Secretary & Compliance Officer: Mr. Anilkumar Tank  
**PROMOTER OF OUR COMPANY: MRS. VARSHABEN KORADIYA**

**BASIS OF ALLOTMENT**  
PUBLIC ISSUE OF 57,30,000 EQUITY SHARES OF A FACE VALUE OF RS. 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF PURE GIFTCARAT LIMITED ("PGL" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 13/- PER SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO RS. 744.90 LAKH ("THE ISSUE"), OF WHICH, 2,90,000 EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (AS DEFINED IN THE SECTION "DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS") (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"), THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 54,40,000 EQUITY SHARES OF RS. 13/- EACH IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE" AGGREGATING UP TO RS. 707.20 LAKHS ("THE ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.51 % AND 25.17 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.  
In terms of Prospectus dated 17th April, 2017 and as per Regulation 43 (4) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 wherein a minimum of 50 % of the Net Issue to Public shall be made available to shall be initially made available to Retail Individual Investors as the case may be. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to a) individual applicants other than retail investors and b) other investors including corporate bodies / institutions in respect of no. of shares applied for. The unsubscribed portion of the net offer to any one of the categories specified in (a) or (b) shall/may be made available for allocation in any other category, if so required.  
Explanation: for the purpose of Regulation 43 (4) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, if the retail individual investor is entitled to more than fifty percent, on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage.  
THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS RS. 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS RS. 13/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 1.30 TIMES OF THE FACE VALUE. ISSUE OPENED ON 26TH APRIL, 2017 AND CLOSED ON 28TH APRIL, 2017  
The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME platform of BSE Limited ("BSE") in terms of the chapter XB of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended from time to time. Company has received an approval letter dated 13th April, 2017 from BSE for using its name in the offer document for listing of our Shares on the SME platform of BSE. The designated stock exchange is BSE Limited.  
All Applicants are mandatorily to participate in the Issue through APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") process by providing the details of the respective bank accounts in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks ("the SCSSBs").

**SUBSCRIPTION DETAILS**  
The Issue has received 474 applications for 83,50,000 Equity Shares (Including Market Maker Application of 2,90,000 Equity Shares) resulting 1,457 times subscription. Three (3) applications of 30,000 Equity Shares were not banked and Four (4) Applications of 40,000 Equity Shares were banked but did not registered, hence total 475 applications were banked for 83,60,000 Equity Shares (Including Market Maker Application of 2,90,000 Equity Shares) resulting 1,459 times subscription was considered. The details of the applications received in the Issue (before technical rejections) are as follows:  
Detail of the Applications Received (Before Technical Rejection & withdrawal of application):

CATEGORY	NUMBER OF APPLICATIONS	NUMBER OF EQUITY SHARES	SUBSCRIPTION
Market Makers	1	2,90,000	1,000
Other than Retail Individual Investor's	96	42,90,000	1,577
Retail Individual Investor's	378	37,80,000	1,390
<b>TOTAL</b>	<b>475</b>	<b>83,60,000</b>	<b>1,459</b>

The details of applications rejected by the Registrar on technical grounds (including withdrawals) are detailed below:

CATEGORY	NUMBER OF APPLICATIONS	NUMBER OF EQUITY SHARES
Market Makers	Nil	Nil
Other than Retail Individual Investor's	3	1,30,000
Retail Individual Investor's	18	1,80,000
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>3,10,000</b>

Details of the Valid Applications Received (After Technical Rejection & withdrawal):

CATEGORY	NUMBER OF APPLICATIONS	NUMBER OF EQUITY SHARES	SUBSCRIPTION
Market Makers	1	2,90,000	1,000
Other than Retail Individual Investor's	93	41,60,000	1,324
Retail Individual Investor's	360	36,00,000	1,324
<b>TOTAL</b>	<b>454</b>	<b>80,50,000</b>	<b>1,405</b>

**ALLOCATION:** The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange - BSE Limited on 4th May, 2017.  
A. **Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue price of Rs. 13/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. The category was subscribed by 1,000 times. The total number of shares allotted in this category is full out of reserved portion of 2,90,000 Equity Shares.  
B. **Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue price of Rs. 13/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. The category was subscribed by 1,324 times. Total number of shares allotted in this category is 27,20,000 Equity Shares. The category wise basis of allotment is as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. Of Applications	% To Total	Total No. of Equity Shares applied	% To Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant (before rounding off)	Allocation per Applicant (after rounding off)	Ratio of Allottees To The Applicants	Total No. of Equity Shares allotted
10000	360	100.00	3600000	100.00	2720000	7555.56	10000	272:360	2720000
<b>TOTAL</b>	<b>360</b>	<b>100.00</b>	<b>3600000</b>	<b>100.00</b>	<b>2720000</b>				<b>2720000</b>

C. **Allocation to Non Retail Investors (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to the Non Retail Investors, at the Issue price of Rs. 13/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. The category was subscribed by 1,529 times. Total number of shares allotted in this category is 27,20,000 Equity Shares. The category wise basis of allotment is as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. Of Applications	% to total	Total No. of Equity Shares applied	% of total	Proportionate Shares Available	Allocation per Applicant (Before Rounding Off)	Allocation per Applicant (After Rounding Off)	Ratio of Allottees To The Applicants	Total No. of Equity Shares allotted	Surplus/(Deficit)
20000	25	26.88	500000	12.02	326923	13076.92	10000	FIRM	250000	(76923)
30000	15	16.13	450000	10.82	294231	19615.38	20000	FIRM	300000	5769
40000	36	38.71	1440000	34.62	941538	26153.85	30000	FIRM	930000	11538
50000	2	2.15	100000	2.40	65383	32692.31	30000	FIRM	60000	(5385)
60000	4	4.30	240000	5.77	156923	39230.77	40000	FIRM	160000	3077
80000	2	2.15	160000	3.85	104615	52307.69	50000	FIRM	100000	(4615)
100000	2	2.15	200000	4.81	130769	65384.62	70000	FIRM	140000	9231
110000	1	1.08	110000	2.64	71923	71923.08	70000	FIRM	70000	(1923)
120000	2	2.15	240000	5.77	156923	78461.54	80000	FIRM	160000	3077
130000	1	1.08	130000	3.13	85000	85000.00	90000	FIRM	90000	5000
140000	2	2.15	280000	6.73	183077	91538.46	90000	FIRM	180000	(3077)
310000	1	1.08	310000	7.45	202693	202692.31	200000	FIRM	200000	(2693)
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>416000</b>	<b>100</b>	<b>2720000</b>				<b>2720000</b>	<b>-</b>

The Board of Directors of the Company at its meeting held on 4th May, 2017 has taken on record the Basis of Allocation of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE and has authorized the corporate action for the transfer of the Equity Shares / dispatch of share certificates to various successful applicants. The allotment advice and/or rejection letters are being dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories / as filed in the application form on or before 8th May, 2017. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks being processed on or prior to 8th May, 2017. In case the same is not received within 10 days, investors may contact the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the SME Platform of BSE Limited within Six working days from the date of the closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on or before 9th May, 2017 subject to receipt of listing and trading approvals from BSE Limited.

**INVESTORS PLEASE NOTE**  
The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bighshare Services Private Limited at All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and ASBA Bank details at the address of the Registrar given below:

**B S S** **BIGHSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED**  
E-2 & 3, Ansa Industrial Estate, Sakinaka, Andheri(E), Mumbai, Maharashtra 400072  
Telephone: + 91-22-4043 0200, Fax: + 91-22-2847 5207  
Email: ipo@bighshareonline.com, Contact Person: Mr. Vipin Gupta  
Website: www.bighshareonline.com  
SEBI Registration Number: INR000001385

For **Pure Giftcarat Limited**  
Sd/-  
Shwet Koradiya  
Chairman & Managing Director

Place: Surat  
Date: 04.05.2017

**THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF PURE GIFTCARAT LIMITED.**  
Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus.

**NOTICE**  
**DECLARATION OF DIVIDEND UNDER AXIS ENHANCED ARBITRAGE FUND**  
Axis Mutual Fund Trustee Limited, Trustee to Axis Mutual Fund has approved the declaration of dividend under the following scheme, the particulars of which are as under:

Name of the Scheme/ Plan	Quantum of Dividend (₹ per unit) <sup>a</sup>	Record Date*	Face Value (₹ per unit)	NAV as of MAY 03, 2017 (₹ per unit)
Axis Enhanced Arbitrage Fund - Regular Plan - Dividend	0.05	May 10, 2017	10	10.5132
Axis Enhanced Arbitrage Fund - Direct Plan - Dividend	0.05		10	10.8557

\* As reduced by the amount of applicable statutory levy, if any.  
# Or the immediately following Business Day if that day is not a Business Day.

**Pursuant to payment of dividend, the NAV of the above stated dividend options of the scheme/plan would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.**

The dividend would be paid to the beneficial owners/ unit holders whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the depositories under the said scheme/plan at the close of business hours on the record date and to the unit holders holding units in physical form, whose names appear in the Register of unit holders maintained with the Registrar and Transfer Agent under the demat option(s) of the scheme/plan as at the close of the business hours on the record date.

Investors may kindly note that declaration of dividend is subject to availability of distributable surplus on the record date/ ex-dividend date. In case the distributable surplus is less than the quantum of dividend on the record date/ ex-dividend date, the entire available distributable surplus in the scheme/plan will be declared as dividend.

for **Axis Asset Management Company Limited**  
(CIN - U65991MH2009PLC189558)  
(Investment Manager to Axis Mutual Fund)

Place : Mumbai Sd/-  
Date : 06/04/2017 Chandresh Kumar Nigam  
No. : May 2017-18 Managing Director & Chief Executive Officer

**Statutory Details:** Axis Mutual Fund has been established as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882, sponsored by Axis Bank Ltd. (liability restricted to ₹ 1 Lakh). **Trustee:** Axis Mutual Fund Trustee Limited **Investment Manager:** Axis Asset Management Company Limited (the **AMC**) **Risk Factors:** Axis Bank Ltd. is not liable or responsible for any loss or shortfall resulting from the operation of the schemes.  
**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**

**AXIS MUTUAL FUND**  
Axis House, First Floor, C2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025, India. TEL : (022) 4325-5161, FAX : (022) 4325-5199, EMAIL : customerservice@axismf.com, WEBSITE : www.axismf.com, EasyCall : 1800 221 322 or 1800 3000 3300

**AXIS MUTUAL FUND**  
Axis House, First Floor, C2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025, India. TEL : (022) 4325-5161, FAX : (022) 4325-5199, EMAIL : customerservice@axismf.com, WEBSITE : www.axismf.com, EasyCall : 1800 221 322 or 1800 3000 3300